



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 192]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 27/2018-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

सा. का. नि. 295(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (च) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 80/ 2010- सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 09.09.2010 जिसे सा.का.नि. 742 (अ) दिनांक 09.09.2010 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा ना की गयी बातों को छोड़कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दिये गए सीमा-शुल्क वायुपत्तनों अतिरिक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल्स के रूप में नियुक्त करता है:-

क्रम संख्या	सीमाशुल्क वायुपत्तन
1.	मुंबई
2.	दिल्ली
3.	चेन्नई
4.	कोलकाता
5.	बेंगलुरु

6.	हैदराबाद
7.	अहमदाबाद
8.	जयपुर
9.	त्रिवेन्द्रम
10.	कोचीन
11.	कोइम्बटूर
12.	कालीकट
13.	तिरुचिरापल्ली

बशर्ते कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनलों के मामले में कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 के विनियम (2) के उप- विनियम (1) उसी सीमा तक लागू होगा जिस सीमा तक आयातित और निर्यातित माल के क्लियरेंस की प्रक्रिया स्वचालित होती हो।

[फा. सं. 450/221/2016-सीमाशुल्क (IV)]

जुवैर रियाज, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

No. 27/2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 80/2010-Customs (N.T.), dated 9th September, 2010 published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR742 (E), dated the 9th September, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Excise and Customs, hereby appoints the following customs airports in the places given below additionally as international courier terminals:-

Sl. No.	Customs Airports
1.	Mumbai
2.	Delhi
3.	Chennai
4.	Kolkata
5.	Bengaluru
6.	Hyderabad
7.	Ahmedabad
8.	Jaipur

9.	Trivandrum
10.	Cochin
11.	Coimbatore
12.	Calicut
13.	Tiruchirapalli:

Provided that in respect of the above international courier terminals, sub-regulation (1) of regulation (2) of the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 shall be applicable to the extent of automation in the clearance process of imported and export goods.

[F. No. 450/221/2016-Cus.IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. 28/2018-सीमा-शुल्क (गै. टै.)

सा. का. नि. 296(ब).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद् द्वारा, कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 में और आगे भी संशोधन करता है, यथा-

1. (1) इन विनियमों को कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कूरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण) विनियमावली, 2010 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विनियमावली से संदर्भित किया गया है), के विनियम 2 में, उपविनियम (2) में, उपवाक्य (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“(ख) निर्यात उन्मुखी इकाई (EOU) योजना और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं, जो कि विदेश व्यापार नीति, 2009-14 या 2015-20 के अध्याय 6 में संदर्भित हैं, से पृथक् अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत माल का आयात या निर्यात, जैसी भी स्थिति हो:

बशर्ते कि यह उपवाक्य उन वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो कि विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) के परिशिष्ट 3ग में अधिसूचित हैं और मरकेडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ़्रोम इंडिया स्कीम (MEIS) के अंतर्गत ऐसी खेप जिसका मूल्य 25000 रुपये तक हो और जिसमें विदेशी मुद्रा में संव्यवहार की बात शामिल हो, के रूप में चेन्नई, दिल्ली और मुंबई वायुपत्तियों से निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित हो।”;

3. उक्त विनियमावली में, विनियम 6 में, उपविनियम (3) में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर जैसी भी स्थिति हो, फॉर्म H की वस्तुओं के लिए कूरियर शिपिंग बिल-IV (CSB-IV), के स्थान पर अभिव्यक्ति, -

“फॉर्म H की वस्तुओं के लिए कूरियर शिपिंग बिल-IV (CSB-IV) या विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) के परिशिष्ट 3ग की वस्तुओं, जिनका मरकेडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ़्रोम इंडिया स्कीम (MEIS) के फॉर्म HA के अंतर्गत निर्यात प्रस्तावित है, के लिए फॉर्म कूरियर शिपिंग बिल-V (CSB-V), जैसी भी स्थिति हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. उक्त विनियमावली में, जहां जहां भी शब्द और अंक “कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग रेगुलेशन, 2004” आए हो वहाँ वहाँ इनके स्थान पर शब्द और अंक “कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन, 2013” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

फॉर्म -HA

कूरियर शिपिंग बिल-V (CSB-V)

[देखे- विनियम 6(3)]

क

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्राधिकृत कूरियर का नाम और पता	सीमाशुल्क केंद्र का नाम	कूरियर पंजीकरण संख्या	लदान वाला पत्तन	एयर लाइन का नाम और फ्लाइट संख्या	कस्टम्स शिपिंग बिल संख्या और तारीख

ख

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)		(11)	(12)	(13)
क्रम संख्या	कूरियर AW B संख्या	पैक ज की संख्या	घोषित भार	गंत व्य स्थान	खेप प्रेषक/निर्यातकर्ता का नाम और पता	निर्यातक का IEC संख्या	इन्वाइस की अवधि	निर्यातक इन्वाइस के अनुसार माल का विवरण				इन्वाइस मूल्य (FOB)		खेप प्रेषिती का नाम और पता	क्या निर्यात e-कॉमर्स के तहत किया गया था हाँ / ना	क्या निर्यात MEIS स्कीम के अंतर्गत किया गया है हाँ / ना
								क्रम सं.	विवरण	मात्रा	HS कोड	मुद्रा	INR			

ग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GSTIN	इन्वाइस नंबर और तारीख	कुल कर योग्य मूल्य	क्या निर्यात के लिए आपूर्ति IGST के भुगतान पर है या नहीं, कृपया स्पष्ट करें	क्या बॉन्ड या UT के एवज में	भुगतान की गयी कुल cess , यदि कोई हो

घोषणा:

- (i) मैं/ हम, एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त निर्यातक ने हमें कूरियर एयरवे बिल के अंतर्गत शिपमेंट की बुकिंग के लिए और उपर्युक्त वर्णित वस्तु के क्लियरंस और निर्यात के लिए एजेंट के रूप में काम करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- (ii) मैं/ हम, एतद् द्वारा, घोषणा करता हूँ/ करती हूँ/ करते हैं कि निर्यातक की घोषणा के आधार पर हम उपर्युक्त CSB-V में की गयी घोषणा का अनुपालन करेंगे।

प्राधिकृत कूरियर के प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
प्राधिकृत कूरियर की मुहर

[फा. सं. 450/221/2016-सीमाशुल्क (IV)]

जुवैर रियाज, निदेशक (सीमा शुल्क)

टिप्पणी : प्रधान विनियमावली को अधिसूचना सं. 36/ 2010-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 05.05.2010 को सा.का.नि. 585 (अ), दिनांक 05.05.2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड (3), उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2017- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 812 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2018

No. 28/2018-Customs (N.T.)

G.S.R. 296(E).—In exercise of the powers conferred by section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Electronic Declaration and Processing) Regulations, 2010 (herein after referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub regulation (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -

“(b) import or export of goods under any export promotion scheme other than Export Oriented Unit (EOU) scheme and similar schemes referred to in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy 2009-14 or 2015-20, as the case may be:

Provided that this clause shall not apply to goods notified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-2020), to be exported from Chennai, Delhi and Mumbai airports under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) in consignment of value up to twenty-five thousand rupees and involving transaction in foreign exchange.”.

3. In the said regulations, in regulation 6, in sub-regulation (3), for the words, figures, brackets and letters, “as the case may be, in the Courier Shipping Bill-IV (CSB-IV) for goods in Form H,” the following shall be substituted, namely: -

“in the Courier Shipping Bill-IV (CSB-IV) for goods in Form H or, as the case may be, in Form Courier Shipping Bill-V (CSB-V) for goods notified in Appendix 3C of Foreign Trade Policy (2015-2020), to be exported under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), in Form HA,” shall be substituted.

4. In the said regulations, for the words and figures “Customs House Agents Licensing Regulations, 2004”, wherever they occur, the words and figures “Customs Brokers licensing Regulations, 2013” shall be substituted.

FORM- HA

Courier Shipping Bill –V(CSB-V)

[See regulation 6(3)]

A

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Name and Address of the Authorised Courier	Name of Customs Station	Courier Registration No.	Port of loading	Airline Name and Flight Number	Customs Shipping Bill Number and Date

B

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				(10)		(11)	(12)	(13)
S. No.	Courier AWB No.	No. of package	Declared Weight	Destination	Consignor/ Exporter Name and Addresses	IEC No. of the Exporter	Terms of invoice	Description of goods as per Exporter Invoice				Invoice Value (FOB)		Consignee's Name and Address	Whether export using e-commerce Yes/No	Whether under MEIS scheme Y/N
								S. No.	Description	Qty	HS Code	Currency	INR			

C

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
GSTIN	Invoice no. and date	Total taxable value	If Supply for export is on payment of IGST. Pl indicate, total IGST paid, if any	Whether against Bond or UT	Total Cess paid, if any

Declaration:

- (i) I/We hereby declare that the exporter mentioned above has authorised us for booking the shipment under the Courier Airway bill and act as an agent for clearance and export of the goods described above.
- (ii) I/We hereby declare that on the basis of declaration of the exporter, I/We shall abide by the declaration in CSB-V, above.

Signature of the Authorised person of the Authorised Courier
with stamp of Authorised Courier

[F. No. 450/221/2016-Cus. -IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)

Note : The principal regulations were published vide notification No. 36/ 2010 -Customs (N.T.), dated the 5th May, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 5th May, 2010 vide number G.S.R. 385(E), dated the 5th May, 2010 and was last amended by notification No. 67/2017-Customs(N.T.), dated the 30th June, 2017 vide number G.S.R. 812 (E), dated the 30th June, 2017.